

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 अगस्त 2014—श्रावण 11, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2014

क्र. एफ 10-3-2011-एक-4.—श्री कार्तिक श्रीवास्तव आत्मज श्री कैलाश श्रीवास्तव, निवासी विजयनगर रजाखेड़ी, मकरोनियम, सागर द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 को विजय नगर रजाखेड़ी में सर्राफा व्यापारी राधा बल्लभ सोनी को लूटने हेतु ग्वालियर से आये तीन सशस्त्र लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने में अदम्य साहस का परिचय देते हुए साहसिक कार्य किया है.

(2) राज्य शासन द्वारा श्री कार्तिक श्रीवास्तव आत्मज श्री कैलाश श्रीवास्तव, निवासी विजय नगर रजाखेड़ी, मकरोनियम, सागर को उनके द्वारा प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिये वर्ष 2010 का “महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार” एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि रुपये 1.00 लाख (रुपये एक लाख) प्रदान की जाएगी.

उपरोक्तानुसार पुरस्कार जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.